

October 29, 2020

BSE Limited
P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements

In continuation of our letter dated October 28, 2020, we enclose copies of the advertisements published on October 29, 2020, in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi) with respect to notice of the Board Meeting scheduled to be held on November 4, 2020.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Life Sciences Limited

Rajiv Shah
Company Secretary

Encl.: as above

A Jubilant Bhartia Company

OUR VALUES



Jubilant Life Sciences Limited

1-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel: +91 120 4361000
Fax: +91 120 4234895-96
www.jubl.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223,
UP, India
CIN : L24116UP1978PLC004624

TOP STORIES

Dr Reddy's to finish Sputnik V trial by May

Leroy Leo
leroy.l@livemint.com
NEW DELHI

Dr Reddy's Laboratories Ltd Wednesday said it plans to complete the phase 3 clinical trials of the Sputnik V covid-19 vaccine by May, and prepare for approval from the Drug Controller General of India (DCGI).

"Phase 2, I hope will be finished by December, which means not just the enrolment and the trial, but also compilation of the results and, hopefully, also get positive response from the authorities that we can continue (the trial)... It (completion of phase 3) can be as early as end of March to April or May," chief executive officer Erez Israeli said in a virtual press conference on Wednesday.

Dr Reddy's will soon start enrolling 100 participants for the phase 2 clinical trial of the vaccine, and after getting the approval to continue, recruit 1,400 subjects for phase 3, Israeli said.

He said the company and its partner Russian Direct Investment Fund (RDIF) is in talks with vaccine manufacturers to produce and supply the covid-19 vaccine.

Israeli, however, did not give details on tentative pricing of the vaccine.

The company received DCGI approval earlier this month to conduct an adaptive phase 2 and 3 clinical trial of the Sputnik V vaccine, which has been co-developed by RDIF and Russia's Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology.

Jio, Apple top customer experience rankings

These brands scored on customer experience and user perception: Kantar

Saumya Tewari
saumya.t@livemint.com
NEW DELHI

Jio, Airtel, Apple and Netflix topped a customer experience (CX) ranking of Indian telecom, media and technology (TMT) companies by Kantar, scored on current experience and potential user perception.

In the telecom and network provider space, Jio and Airtel shared the top spot with 1.5x higher engagement levels with customers than those at the lower end of the index, said Kantar, a data, insights and consulting firm. These brands delivered on price benefits, connectivity and customer support, and the likelihood of their customers remaining loyal rose by 1.5x, while the chances of their customers recommending them also increased by 1.6x.

The Kantar CX+ study analysed responses from over 6,000 customers across 13 cities in early 2020 to identify key TMT brands with the best customer experience. As consumers become dependent on telecom and digital service providers during the pandemic for their daily activities and livelihood, brands have to provide high-quality service to acquire and retain them.

Apple topped Chinese smartphone maker Xiaomi to become India's top technology brand in terms of customer experience. OnePlus and Samsung occupy the third position with Xiaomi at second place when it comes to customer experience.

Apple has 1.8x higher engagement levels than those at the lower end of the index, and customers are more likely to recommend the brand to others. Interestingly, for this category, experience in branded stores at the time of purchase, delivery of brand promise and being customer-centric are more important drivers

MINT GRAPHITI

Top of the game

In the telecom and network provider space, Jio and Airtel shared the top spot, while Apple was named as the top tech brand. Tata Sky topped in the satellite service provider category while Netflix emerged a winner in digital streaming services segment.

Leaders in the TMT sector in India

Ranking	Telecom network providers	Media streaming platforms	Hand-held devices	Satellite service provider
1	Jio and Airtel	Netflix	Apple	Tata Sky
2		Amazon Prime	Xiaomi	
3			OnePlus and Samsung	
Special mention		Amazon Music, Spotify and Apple Music		

Source: Kantar CX+ 2020 study

SARVESH KUMAR SHARMA/MINT

of customer experience than functional aspects relating to the product themselves. Tata Sky topped the list in the satellite service provider category.

In the digital streaming services segment, Netflix emerged as the winner, scoring 1.8x higher engagement levels with the customers. Amazon Prime occupied the second spot.

touch with the company, value for money, customer centricity and download/buffering speed.

Soumya Mohanty, chief client officer, South Asia, insights division, Kantar, said that in the current scenario, with tech convergence and emerging global media giants, the world will see vigorous competition in the TMT sector.

"As network services providers, hand-held device brands and streaming media providers, all will leverage customer data to build personalized journeys, CX and owning the relationship with the end user will become increasingly important. As people depend on digital services during pandemic more customer support issues will crop up which needs to be effectively dealt with to maintain brand loyalty. The streaming landscape has witnessed immense fragmentation with new video platforms being launched therefore Netflix and Amazon Prime have to up their game to retain users," she added.

BUILDING BRAND LOYALTY

THE Kantar study was conducted to identify TMT brands with best customer experience

AS people depended on digital services during pandemic, brands had to give high-quality service

IF a brand has higher engagement levels, customers are more likely to recommend it to others

None of the audio streaming services (Amazon Music, Spotify and Apple Music) could make it to the top position in the list owing to low differentiation and positioning in the country.

The report stated that even for a new category like streaming platforms, basic attributes emerge as top drivers of customer experience including ease of getting in

Covid-19 is accelerating consumer shift towards online, say top FMCG cos

Suneera Tandon
suneera.t@livemint.com
NEW DELHI



Italian regulator investigates Google over digital ads
bit.ly/2TDM68R

The covid-19 pandemic is accelerating a consumer shift to online in a big way, the country's top consumer goods companies and retailers said on Wednesday, even though they maintained that India will continue to see several retail formats co-exist.

"We're seeing a huge trajectory change on the grocery part of online retailing. A lot of folks predict that this accelerated trajectory is here to stay. I think it's fair to say that the trajectory is going to continue to increase... Whether that accelerated slope will continue or not is a matter of conjecture, but I think one can say with a fair degree of confidence that the salience will grow," said Madhusudan Gopalan, chief executive officer and managing director, P&G India Sub-Continent, at the three-day FICCI-Massrize virtual conference that started on Wednesday.

Gopalan, whose company sells brands such as Ariel detergents and Olay face creams, said e-commerce will grow when online retailers and brands work together.

Retailers and makers of fast-moving consumer goods, struck by the covid 19 lockdown, were forced to re-look at the ways they reach consumers, especially as demand for goods of daily use continued to be high. Since then, several consumer goods companies have identified clear trends and chased those—including heightened usage of hygiene products and expanding their reach to shoppers on e-commerce and the humble grocer.

Covid is leaving a long-lasting impact on consumer behaviour globally, said Sanjiv Mehta, chair of FICCI's FMCG committee and chairman and managing Director, Hindustan Unilever Ltd.

"There are certain trends which are becoming very discernible—covid cooing, e-everything, clean living, the fetish for cleanliness, contactless culture, health and well-being, value seeking. These are very clearly behaviours which



Sanjiv Mehta, chair of FICCI's FMCG committee and HUL chief, said the move toward e-commerce is 'irreversible'. MINT

I believe are there to stay even after the crisis is gone."

Mehta said the move toward e-commerce is now "irreversible".

However, the top boss of India's leading packaged consumer goods company argued that unlike other markets, India's retail trade will continue to see general, modern and e-retail co-exist. But he pointed to "digitization" of the country's small retail stores.

"But there is one unique aspect of India—the grocery channel in India is unique in many ways. The second is the cost of distribution in the grocery channel is absolutely fine, it is not something that is very high... And during this period, we have seen the benefit of proximity. People have gravitated towards the nearby neighbourhood grocery, because of sheer convenience."

As a result, India is not a country where general trade will disappear. "The share of general trade may come down. But people will make a fatal mistake if they write an obituary of general trade. No, it's not going to happen even after 10 years, the biggest channel would still be general trade. But I would believe general trade would be a digitized general trade, it would be a connected trade," said Mehta.

MOIL LIMITED
(A Government of India Enterprise)
"MOIL Bhawan", 1-A, Katol Road, Nagpur - 440013

Website: www.moil.nic.in | E-mail: compliance@moil.nic.in
Telefax: 0712 - 2590644 | Telephone: 0712 - 2806154 | CIN:L99999MH1962GOI012398

Statement of unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2020
(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended	Half Year ended		
		30/09/2020 Unaudited	30/09/2019 Unaudited	30/09/2020 Unaudited	30/09/2019 Unaudited		
1.	Total income from operations	30720.12	25311.37	45953.60	30720.12	25311.37	45953.60
2.	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	864.54	10446.65	6076.49	864.54	10444.69	6076.49
3.	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	864.54	10446.65	1076.49	864.54	10444.69	1076.49
4.	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	733.07	8861.17	921.07	733.07	8859.21	921.07
5.	Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	822.68	8215.66	1311.20	822.68	8213.70	1311.20
6.	Equity share capital (Face value of ₹ 10 each)	23732.79	25760.89	23732.79	23732.79	25760.89	23732.79
7.	Earnings per share from continuing operations (Face value of ₹ 10 each)						
	Basic	0.31	3.44	0.39	0.31	3.44	0.39
	Diluted	0.31	3.44	0.39	0.31	3.44	0.39

Notes:

- The above results, reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 28th October, 2020.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Financial results in details format are available on the websites of Stock Exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.moil.nic.in).
- Covid-19 pandemic and lockdown protocols have led to severe disruptions, affecting both the turnover and the profit during current reporting period. Therefore, the performance of the company for this period is not comparable with corresponding period of any period of previous year.
- Exceptional items includes contribution towards PM Cares Fund and CM Relief Fund.
- The cost of production has gone up due to low volume of production during the 6 months of FY.2020-21 for the reason stated in (3) above. As the cost of production is more than net realisable value of inventory in case of some of the grades of Manages ore, the inventory has been valued at net realisable value for those grades as per the Accounting policy of the Company.
- Pursuant to Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated 20.09.2019, the Company has exercised the option permitted under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 to compute income tax at the revised rate (i.e., 25.168% including surcharge and cess) from the financial year 2019-20. The tax expense for the quarter ended 30th September, 2020 is after considering the impact of the revised tax rate.
- Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to make them comparable. The figures for the quarter ended 30th September, 2020 are balancing figures between the unaudited figures of the half year and the reviewed figures up to the first quarter of the financial year.

For MOIL Limited
Sd/-
M. P. Chaudhari
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 05339308

Place: Nagpur
Date : 28th October, 2020

MOIL - Adding Strength to Steel

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida-201301 (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from firms/contractors registered with the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on NOIDA Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & https://etender.up.nic.in Please ensure to see these websites for any changes/amendments & corrigendum etc.

(a).

S.No.	Job no./ Work name	Amount
1.	202/D(H)DD(H)-II/2020-21, D/o Park (Landscape work near Shilpaat Shivalik marg and entry point sector 33A) Noida (Civil Work).	Cost Rs. 723.50 Lacs

Which can be uploaded by date 11.11.2020 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on date 12.11.2020 at 11.00 AM.

Office : Sector-39, Noida
Director (Hort), Noida

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED
(CIN : L24116UP1978PLC004624)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha-244223, Uttar Pradesh
Phone: +91-5924-267200
E-mail: investors@jubl.com
Website: www.jubl.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 4, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020 (the "Financial Results") in accordance with Regulation 33 of the Listing Regulations.

A copy of this Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website www.jubl.com and the websites of the Stock Exchanges - NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com.

For Jubilant Life Sciences Limited
Sd/-
Rajiv Shah
Company Secretary

Place: Noida
Date : October 28, 2020

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida, G.B. Nagar (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com

Ref. Tender Notice:-NOIDA/S.P.E.(P.H.)/2020/
Date: -10-2020

Job No- 23/SPE/PE(PH-II)/2020-21

Office of The Senior Project Engineer (Public Health) invites bids on Lump sum basis from NABET Accredited reputed Consulting firms for **Obtaining Environmental Clearance for Dumpsite Remediation Project** under EIA Notification 2006 at Sector 145, Noida, Uttar Pradesh, as per Section - 2.

01	Name and Address of the Office inviting tender	Office Of The Senior Project Engineer (Public Health)
02	Name of the Work	Request for Proposal for Selection of Consultant for Consultancy Services for "Preparation of EIA/EMP Report for the grant of Environmental Clearance for Dumpsite Remediation Project" under EIA. Notification 2006
03	Earnest Money Deposit	Rs. 40,000/- (Forty Thousands) in the form of Demand Draft (DD) by a Nationalized/ Scheduled Bank in India, in favour of NOIDA
04	Contract Period	08 Months
05	Date of Invitation of the Bid	29-10-2020
06	Last Date of Submission of the Bid	18-11-2020
07	Pre Bid Meeting	11-11-2020
08	Opening of Technical Bid	19-11-2020
09	Validity of offer	90 Days
10	Currency of Contract	Indian Rupees
11	Language of Contract	English

SITE VISIT:-
The bidder may visit the site at its own cost to know the actual condition of projects. The intending Bidder may contact public health office with regard to the site location.
Office of the Senior Project Engineer (Public Health) reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason there for.
Bidders are advised to read carefully each and every line of details of document before submission of proposal.
Addendum/Corrigendum, if any shall be intimated well in advance.
No Conditional Tender shall be accepted.

(S.C. Mishra)
OFFICE OF THE SENIOR PROJECT ENGINEER (PUBLIC HEALTH)
Sr. Project Engineer (Public Health, Noida)
Sector-39, Noida, Uttar Pradesh

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1, (पी-2) ग्रेड नोएडा सिटी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर, फोन नं.: 0120-2395152 वेबसाइट: www.yamuna.expresswayauthority.com

पत्रांक : वाई.ई.ए./ग्लू/1025/2020 दिनांक : 28/10/2020

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित क्षेत्र में आपसी सहमति के आधार पर निम्न कारकतारों से भूमि क्रय किया जाना प्रस्तावित है— सैक्टर-32, ब्लॉक-2 व सैक्टर-33 ब्लॉक-1 व रोड नं 18 (ग्राम मुरादगढी व वीरमपुर)

क्र.सं	ग्राम का नाम	खता संख्या	खसरा संख्या	अवशेष क्षेत्रफल	अवशेष कारकतारों के नाम
1.	मुरादगढी	107	588	0.2286	नईमुददीन व फखरुद्दीन पुत्रगण मान खॉं नि 0 शाहबेरी
2.		145	131	0.0401	सोनिया पत्नी राजकुमार नि 0 मुन्नाजाटान
		146	130	0.0442	
3.	वीरमपुर	395	368	0.1640	सुभाष पुत्र महीपाल नि 0 ग्राम वीरमपुर
4.		129	380	0.0325	मुकेश, मुन्ना, धर्मवीर पुत्रगण रमेश निवासी ग्राम वीरमपुर

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। विशेष कार्यधिकारी

PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD
Chayan Bhawan, Main Road No. 1
Chinar Park (East), Bhopal-462011
Tender No. 35/2020 Bhopal, Dated : 28.10.2020

E-TENDER INVITATION NOTICE No. - 35/2020

e-Tender is hereby invited by Professional Examination Board for Selection of Agency to provide Question Bank and support Skill Based Examination.

Important Dates are :-

Bid Calling Date : 28 Oct. 2020
Bid Due Date : 15 Nov. 2020 05.30 pm
Bid Opening Date : 17 Nov. 2020 11.30 am

Detailed e-Tender Notice and corrigendum will be available in the official website of PEB www.peb.mp.gov.in and www.mptenders.gov.in
M.P. Madhyam/98795/2020 DIRECTOR

जब तक कोरोना की व्हाई नहीं, तब तक छिलाई नहीं।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1, (पी-2) ग्रेड नोएडा सिटी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर, फोन नं.: 0120-2395152 वेबसाइट: www.yamuna.expresswayauthority.com

पत्रांक-वाई.ई.ए./प्लग/965/2020 दिनांक: 28.10.2020

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा संवर्धन को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक-03/10/2020 की मद संख्या-68/19 में संचालक मण्डल द्वारा आवंटित टाउनशिप भूखण्डों, एसडीओजेड (सैक्टर-25) एवं एलओएफडी0 में आवंटियों व सहआवंटियों की सुविधा का ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण द्वारा आवंटित एकल आवासीय भूखण्डों की भांति अन्य सहआवंटित 300 वर्ग मी0 तक के एकल आवासीय भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति हेतु कांजसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविदों को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। सहआवंटित भूखण्डों पर प्राधिकरण की भवन विनियमावली के साथ सम्बन्धित स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र एवं सह पट्टा प्रलेख में उल्लिखित नियम व शर्तों का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। तदनुसार उक्त प्रक्रिया दिनांक-03/10/2020 से प्रभावी होगी। साथ ही दिनांक-03/10/2020 से पूर्व मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों पर पूर्व में निर्धारित पध्ति के अनुसार ही मानचित्र स्वीकृति किये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Follow us:
@mint.live @livemint
live_mint livemint
www.livemint.com

mint Think Ahead. Think Growth.

